



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 152]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 30, 1983/चैत्र 9, 1905

No. 152]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 30, 1983/CHAITRA 9, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

वित्त मंत्रालय  
(प्राथमिक कार्य विभाग)  
(बैंकिंग प्रभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 28 मार्च, 1983

का०प्रा० 242(घ).—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, पंजाब नेशनल बैंक के अनुरोध पर 30 मार्च, 1983 से पंजाब राज्य में कपूरथला फीरोजपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के नाम से एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना करती है जो कि पंजाब राज्य के कपूरथला और फीरोजपुर जिले की स्थानीय सीमाओं में कार्य करेगा।

[संख्या एफ० 1/2/83-आर०आर०बी०(1)]

MINISTRY OF FINANCE  
(Department of Economic Affairs)  
(Banking Division)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 28th March, 1983

S.O. 242.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (2 of 1976), the Central Government, on being requested so to do by Punjab National Bank establishes, with effect from the 30th March 1983 a Regional Rural Bank in the State of Punjab under the name of Kapurthala Firozpur Kshetriya Gramin Bank which shall operate within the local limits of the districts of Kapurthala and Firozpur in the State of Punjab.

[No. F. 1/2/83-RRB(1)]

का०प्रा० 243(घ).—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक तथा कपूरथला फीरोजपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के प्रायोजक पंजाब नेशनल बैंक से परामर्श

करके, कपूरथला को उस स्थान के रूप में निर्धारित करती है, जहाँ पर कपूरथला फीरोजपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का मुख्य कार्यालय होगा।

[संख्या एक 1/2/83-आर०आर०बी०(ii)]

**S.O. 243(E).**—In pursuance of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government after consultation with the Reserve Bank of India and Punjab National Bank by which Kapurthala Firozpur Kshetriya Gramin Bank has been sponsored specifies Kapurthala as the place where Kapurthala Firozpur Kshetriya Gramin Bank shall have its head office.

[No. F. 1/2/83-RRB(II)]

**का०ग्रा० 244(अ).**—भारतीय रिजर्व बैंक, अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उपधारा (6) के खंड (क) के उपखंड (iii) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त उपखंड के प्रयोजनों के लिये, कपूरथला फीरोजपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कपूरथला को प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत स्थापित एक संस्था के रूप में अधिसूचित करती है।

[संख्या एक 1/2/83-आर०आर०बी०(III)]

**S.O. 244(E).**—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (a) of sub-section (6) of section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Central Government hereby notifies for the purpose of the said sub-clause Kapurthala Firozpur Kshetriya Gramin Bank, Kapurthala being an institution established under sub-section (1) of section 3 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976).

[No. F. 1/2/83-RRB(III)]

**का०ग्रा० 245(अ).**—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (i) प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा श्री वाई० पी० पुरी को कपूरथला फीरोजपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कपूरथला का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 30 मार्च, 1983 से प्रारम्भ होकर 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान श्री वाई पी० पुरी अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।

[संख्या एक 1/2/83-आर०आर०बी०(iv)]

बी०के० वीक्षित, संयुक्त सचिव

**S.O. 245(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976) the Central Government hereby appoints Shri Y. P. Puri as the Chairman of the Kapurthala Firozpur Kshetriya Gramin Bank, Kapurthala and specifies the period commencing on the 30th March 1983 and ending with the 31st March 1986 as the period for which the said Shri Y. P. Puri shall hold office as such Chairman.

[No. F. 1/2/83-RRB(IV)]

V. K. DIXIT, Jt. Secy.

भारतीय रिजर्व बैंक

ग्रामीण प्रयोजना तथा ऋण कक्ष  
बम्बई

अधिसूचना

बम्बई, 30 मार्च, 1983

**का०ग्रा० 246(अ).**—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उपधारा (6) के खंड (क) के अनुसरण में, भारतीय रिजर्व बैंक एतद्वारा निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित बैंक को समाविष्ट किया जाये, अर्थात्:—

“कपूरथला फीरोजपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कपूरथला (पंजाब)”

[(आर०पी०सी०डी० संख्या 258/आई०एन०सी०एल०/311/83)]

एच०बी० शिवमग्गी, कार्यपालक निदेशक

RESERVE BANK OF INDIA

RURAL PLANNING AND CREDIT DEPARTMENT  
BOMBAY

NOTIFICATION

Bombay, the 30th March, 1983

**S.O. 246(E).**—In pursuance of clause (a) of sub-section (6) of section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) the Reserve Bank of India hereby directs the inclusion in the second Schedule to the said Act of the following bank, namely:

“(Kapurthala Firozpur Kshetriya Gramin Bank, Kapurthala (Punjab)”.

[RPCD. No. 258/INCL/311-83]

H. B. SHIVAMAGGI, Executive Director.